



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2016/माघ 8, 1937

No. 63]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2016/MAGHA 8, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 116(अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए पांच सौ रुपये और दस रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **सिक्कों का अंकित मूल्य--** "श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात्: —

(i) पांच सौ रुपये;

(ii) दस रुपये;

3. **सिक्कों की विमाएं और संरचना ---** नियम 2 में उल्लिखित अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्: —

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
पांच सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी – 50 प्रतिशत तांबा – 40 प्रतिशत निकल – 05 प्रतिशत जस्ता – 05 प्रतिशत
दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर (द्वि-धातुक)	-	बाह्य बलय (एल्युमिनियम कांसा) तांबा – 92 प्रतिशत एल्युमिनियम- 06 प्रतिशत निकल – 02 प्रतिशत केंद्रीय भाग (कूप्रो निकल) तांबा- 75 प्रतिशत निकल – 25 प्रतिशत

4. डिज़ाइन – सिक्कों का डिज़ाइन निम्नानुसार होगा : —

(i) पांच सौ रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **“सत्यमेव जयते”** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **“भारत”** शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **“INDIA”** शब्द होगा और सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक **“₹”** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **“500”** भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में **“श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु”** की मुखाकृति होगी, सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **“श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती”** और निचली परिधि पर अंग्रेजी में **“500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHATTANYA MAHAPRABHU'S COMING TO VRINDAVAN”** उत्कीर्णित होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चित्र के बायीं ओर देवनागरी में वर्ष **“२०१५”** तथा दायीं ओर अंग्रेजी में **“2015”** लिखा होगा।

(ii) दस रुपये

अग्र भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **“सत्यमेव जयते”** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **“भारत”** शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **“INDIA”** शब्द होगा और सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक **“₹”** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **“10”** भी होगा।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में **"श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु"** की मुखाकृति होगी, सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में **"श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती"** और निचली परिधि पर अंग्रेजी में **"500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHATTANYA MAHAPRABHU'S COMING TO VRINDAVAN"** उत्कीर्णित होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चित्र के बायीं ओर देवनागरी में वर्ष "२०१५" तथा दायीं ओर अंग्रेजी में "2015" लिखा होगा।

5. **मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट:** **"श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की 500वीं जयंती"** के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए बनाए गए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात छूट निम्नलिखित सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी, अर्थात्: —

सारणी

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात छूट	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
पांच सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी में 1/500वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात् चाँदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100वां जोड़ कर या घटा कर अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।
दस रुपये	7.71 ग्राम (बाह्य वलय 4.45 ग्राम और मध्य भाग 3.26 ग्राम)	बाह्य वलय- (एल्युमिनियम-कांसा) एल्युमिनियम- 5.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत, निकल- 1.75 प्रतिशत से 2 प्रतिशत और शेष तांबा है। मध्य भाग- (कूप्रो- निकल) तांबा और निकल दोनों के लिए 1 प्रतिशत जोड़ कर या घटा कर अर्थात् तांबे में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत और निकल में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत का अंतर हो सकता है।	2.5 प्रतिशत जोड़ कर या घटा कर अर्थात् वजन में 7.52 ग्राम से 7.90 ग्राम का अंतर हो सकता है।

[एफ. सं. 02/26/2015-सिक्का]

पंकज गुप्ता, अवर सचिव (एस.पी.एम.सी. और सिक्का)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economics Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2016

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of Sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Coinage of Five Hundred Rupees and Ten Rupees Coins to commemorate the occasion of “**500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU’S COMING TO VRINDAVAN**” Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coins:-** The coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of “**500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU’S COMING TO VRINDAVAN**”, namely:—

1. Five Hundred Rupees;
2. Ten Rupees.

3. **Dimension and composition of coins:** - The coins of the denominations mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: —

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Five Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent Copper -40 per cent Nickel - 05 per cent Zinc - 05 per cent
Ten Rupees	Circular 27 millimeters (Bi-metallic)	---	Outer Ring (Aluminium Bronze) Copper - 92 per cent Aluminium -06 per cent Nickel -02 per cent Center piece (Cupro Nickel) Copper - 75 per cent Nickel - 25 per cent

4. Design:- The design of the coins shall be as under: —

(i) **FIVE HUNDRED RUPEES**

OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar in the center with the legend “सत्यमेवजयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devanagri script and on the right periphery flanked with the word “INDIA” in English and it shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “500” in the international numerals below the Lion Capital.

REVERSE:

The face of coin shall bear the image of “SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU” in the center, with inscription “श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की ५००वीं जयंती” in Devanagri script on upper periphery and “500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU’S COMING TO VRINDAVAN” in English on the lower periphery respectively. The

year's figure "२०१५" shall be written in Devanagari on left side of the picture of **SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU** and "2015" in English on the right side respectively.

(ii) TEN RUPEES

OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the center with the legend "सत्यमेवजयते" inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devanagari script and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English and it shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "10" in the international numerals below the Lion Capital.

REVERSE:

The face of coin shall bear the picture of "**SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU**" in the center, with inscription "श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमन की ५००वीं जयंती" in Devanagari script on upper periphery and "**500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU'S COMING TO VRINDAVAN**" in English on the lower periphery respectively. The year's figure "२०१५" shall be written in Devanagari on left side of the picture of **SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU** and "2015" in English on the right side respectively.

4. **Standard weight and remedy allowed:-** The standard weight of the coins of the following denominations, coined to commemorate the occasion of "**500TH ANNIVERSARY OF SHRI KRISHNA CHAITANYA MAHAPRABHU'S COMING TO VRINDAVAN**" and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below: —

TABLE

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Five Hundred Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say, weight could vary from 34.65 grams to 35.35 grams.
Ten Rupees	7.71 Grams (outer ring 4.45 grams and center piece 3.26 grams)	Outer Ring – (Aluminium – Bronze) Aluminium 5.5 per cent. to 6 per cent; Nickel- 1.75 per cent. to 2 per cent. and remainder are copper. Centre piece – (Cupro- Nickel) Plus or minus 1 per cent. for both Copper and Nickel, that is to say, the copper may vary from 74 per cent. to 76 per cent. and Nickel from 24 per cent. to 26 per cent.	Plus or minus 2.5 per cent. that is to say, the weight could vary from 7.52 grams to 7.90 grams.

[F. No. 02/26/2015-Coin]

PANKAJ GUPTA, Under Secy. (SPMC and Coin)